

CURRENT AFFAIRS QUIZ

Q.1) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर-स्थायी सदस्यों को पांच वर्ष के लिए चुना जाता है।
2. भारत अब तक सुरक्षा परिषद का कभी भी गैर-स्थायी सदस्य नहीं रहा है।

सही कथनों का चयन करें

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.1) Solution (d)

भारत को 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर-स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है।

गैर-स्थायी सदस्यों का चुनाव दो वर्ष के लिए होता है - इसलिए प्रत्येक वर्ष महासभा कुल 10 में से पाँच गैर-स्थायी सदस्यों का चुनाव करती है।

भारत इससे पहले 1950-51, 1967-68, 1972-73, 1977-78, 1984-85, 1991-92 और 2011-12 में सुरक्षा परिषद का गैर-स्थायी सदस्य रहा है।

Source: <https://indianexpress.com/article/explained/what-are-non-permanent-seats-in-the-un-security-council-and-how-are-they-filled-6465539/>

Q.2) 'तुलिनी महोत्सव' (Tulini Festival) किसके द्वारा मनाया जाता है

- a) अपातानी जनजाति
- b) सुमी जनजाति
- c) डोंगरिया-कोंध जनजाति
- d) चेंचू जनजाति

Q.2) Solution (b)

तुलिनी महोत्सव भाई-चारा, एकजुटता, साझाकरण और एकता का प्रतीक है, जो केवल सुमी समुदाय के बीच ही नहीं बल्कि पूरे नागों के बीच है।

सुमी जनजाति - नागालैंड

Q.3) 'प्रधानमंत्री स्वनिधि' (PM Svanidhi) के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यह रेहड़ी, पटरी विक्रेताओं (street vendors) को-10,000 तक का सस्ता लोन देने के लिए एक विशेष माइक्रो-क्रेडिट सुविधा योजना है।
2. इसे वित्त मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है।

सही कथनों का चयन करें

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.3) Solution (a)

IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-3

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने सोमवार को प्रधानमंत्री स्वनिधि, या प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि योजना आरंभ की, जो 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रु. तक का सस्ता ऋण प्रदान करने के लिए एक विशेष माइक्रो-क्रेडिट सुविधा योजना है, जिनका 24 मार्च को या उससे पहले कारोबार संचालन में था। यह योजना मार्च 2022 तक वैध है।

Source: <https://www.livemint.com/news/india/centre-launches-scheme-for-street-vendors-to-get-loans-of-up-to-rs-10-000-11591015442185.html>

Q.4) 'सिविल सेवा बोर्ड' (Civil Services Board) का नेतृत्व कौन करता है

- राज्य का राज्यपाल
- राज्य के मुख्य सचिव
- मुख्यमंत्री
- कैबिनेट सचिव

Q.4) Solution (b)

नियमों के अनुसार, सभी राज्यों में नौकरशाहों के स्थानान्तरण और पोस्टिंग पर निर्णय लेने के लिए एक सिविल सेवा बोर्ड होना चाहिए। बोर्ड को अपने निर्धारित कार्यकाल के पूरा होने से पहले एक सिविल सेवक के स्थानान्तरण पर निर्णय लेना अनिवार्य है। नियम सिविल सेवा बोर्ड को 1 जनवरी को केंद्र सरकार को उनके द्वारा आयोजित बैठकों की तारीख के बारे में एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए तथा साथ ही, संबंधित राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश की वेबसाइट पर सार्वजनिक डोमेन में अपलोड करने के लिए भी अनिवार्य करते हैं।

सिविल सेवा बोर्ड का नेतृत्व एक राज्य के मुख्य सचिव करते हैं तथा इसमें वरिष्ठतम अतिरिक्त मुख्य सचिव या अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड, वित्तीय आयुक्त या सदस्य के रूप में समकक्ष रैंक और पद के अधिकारी होते हैं। इसके अलावा, इसके सदस्य सचिव के रूप में राज्य सरकार में कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव या सचिव होंगे।

राजनीतिक हस्तक्षेप से नौकरशाही को बचाने के लिए तथा राजनीतिक आकाओं द्वारा सिविल सेवकों के लगातार स्थानान्तरण को समाप्त करने के लिए, सर्वोच्च न्यायालय ने 2013 में केंद्र और राज्यों को निर्देश दिया था कि वे नौकरशाहों के स्थानान्तरण और पोस्टिंग पर विचार करने के लिए एक सिविल सेवा बोर्ड का गठन करें।

Source: <https://indianexpress.com/article/explained/explained-why-are-punjab-congress-leaders-up-against-cbs-notification-6464873/>

Q.5) 'कानून का शासन सूचकांक' (Rule of Law Index) किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है

- विश्व न्याय परियोजना (World Justice Project)
- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय
- अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय
- इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (Economist Intelligence Unit)

Q.5) Solution (a)

विश्व न्याय परियोजना (World Justice Project) कानून का शासन सूचकांक एक मात्रात्मक मूल्यांकन उपकरण है, जो इस बात का विस्तृत और व्यापक चित्र प्रस्तुत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि देश किस हद तक कानून के शासन का पालन करते हैं। सूचकांक कानून के शासन के आठ आयामों पर डेटा प्रदान करता है: सीमित सरकारी शक्तियां; भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति; व्यवस्था और सुरक्षा; मौलिक अधिकार; खुली सरकार; विनियामक प्रवर्तन; नागरिक न्याय; और आपराधिक न्याय।

Source: <https://www.thehindu.com/news/national/decide-on-plea-on-rule-of-law-index-in-6-months-supreme-court-tells-government/article31863917.ece>

IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-3

Q.6) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. छो लुंग सुकफा ने अहोम साम्राज्य की स्थापना की।
2. मुगलों ने कभी भी अहोमों की भूमि को जीतने का प्रयास नहीं किया।

सही कथनों का चयन करें

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.6) Solution (a)

सुकफा एक 13 वीं शताब्दी का शासक था जिसने छह सदियों तक असम पर शासन करने वाले अहोम साम्राज्य की स्थापना की। समकालीन विद्वान बर्मा में उसके वंशजों का पता लगाते हैं।

अहोमों को दक्षिण-पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 में, मीर जुमला के अंतर्गत मुगलों ने अहोम साम्राज्य पर हमला किया। उनकी बहादुर रक्षा के बावजूद, अहोम पराजित हुए थे। लेकिन इस क्षेत्र पर प्रत्यक्ष मुगल नियंत्रण लंबे समय तक नहीं चल सका।


Source: <https://indianexpress.com/article/explained/the-legacy-of-sukapha-founder-of-ahom-kingdom-6468320/>

Q.7) 'सोहराई और खोवर चित्रकला' (Sohrai and Khovar paintings) निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है?


- a) झारखंड
- b) महाराष्ट्र
- c) हरियाणा
- d) असम

Q.7) Solution (a)

खोवर शादी के कमरों की सजावट को दर्शाता है और सोहराई मिट्टी के घरों पर फसली पेंटिंग है, जिसमें बारिश के बाद इसकी मरम्मत करना तथा प्रकृतिक शक्तियों को धन्यवाद दिया जाता है।



IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-3



Art and Culture
CHHAU DANCE | SOHRAI PAINTING

Festival
SARHUL | KARAM

Tourism
DALMA TOP | TAGORE HILL

Food
DHUSHKA | MALPUA

Art and Culture
MANDO (MUSIC) | DHANGAR DANCE

Festival
GOA CARNIVAL

Tourism
BASILICA OF BOM JESUS

Food
KALPUTI | AMBOT TIK

Q.8) निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित है?

समाचारों में स्थान - राज्य

1. चोपटा (Chopta) - उत्तराखंड
2. फूलों की घाटी (Valley of Flowers) - हिमाचल प्रदेश
3. मदिकेरी (Madikeri) - कर्नाटक

सही कूट चुनें:

- a) 1 और 2
- b) 1 और 3
- c) 2 और 3
- d) केवल 3

Q.8) Solution (b)



Uttarakhand
Valley of Flowers

This world heritage site is set in the backdrop of the majestic Himalayan Ranges. A popular trek to this paradisiacal place takes travellers through gorgeous landscapes, where they get the chance to sight rare and exotic Himalayan flora.

Karnataka
Hampi



The UNESCO recognized World Heritage Site is known for its archaeological significance. This famous huge Stone Chariot that stands magnificent in front of the Vittala Temple is one of the must-visit places in and around Hampi.



Barren Island

India's only confirmed active volcano is located in Barren Island. It is about three kilometres in diameter and has a big crater of the volcano. This place is uninhabited by humans, earning it, it's name.

Kavaratti Island

The Kavaratti is the capital of the Union Territory of Lakshadweep. It has been selected as one of the hundred Indian cities to be developed as a smart city under PM Narendra Modi's flagship Smart Cities Mission.

A banner for Karnataka Madikeri and Uttarakhand Chopta. It features a green hilly landscape for Madikeri and a stone temple for Chopta. The banner includes the PIB logo on the left and right, and the 'EK BHARAT SHRESTHA BHARAT' logo in the center. The text 'Karnataka' and 'Uttarakhand' are in blue, 'Madikeri' is in green, and 'Chopta' is in orange.

Karnataka

Madikeri

Rich coffee plantations and a breath of chill, fresh air along the hilly terrains is Madikeri, the capital of Kodagu (Coorg). Also known to be the 'Hidden Jewel of South India', Coorg is the 'Coffee Bowl' of the country as it accounts for nearly 40% of the country's total coffee production.

Uttarakhand

Chopta

This unspoiled natural destination lying in the lap of Himalayas, offers vistas of the imposing Himalayan range including Trishul, Nanda Devi and Chaukhamba. Chopta is also a base for trekking to Tungnath, third temple of Panch Kedar, which lies 3.5 kms uphill.

IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-3

Q.9) 'फेवीपिरवीर' (Favipiravir) के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. यह जापान में विकसित किया गया था तथा बाद में, इन्फ्लूएंजा रोगियों के बीच उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया था।
2. COVID-19 के उपचार के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा इसे अनुमोदित किया गया है।

सही कथनों का चयन करें

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.9) Solution (c)

फेवीपिरवीर (Favipiravir) एक एंटी-वायरल दवा है तथा इसे इन्फ्लूएंजा के इलाज के लिए जापान में अनुमोदित किया गया है।

फेज -3 डेटा के आधार पर, ग्लेनमार्क ने एंटीवायरल दवा फेविपिरवीर के निर्माण और विपणन के लिए मंजूरी प्राप्त की, जिसे फेबीफ्लू (FabiFlu), एक मौखिक दवा के रूप में ब्रांडेड किया गया है। अनुमोदन केवल हल्के से मध्यम कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए आपातकालीन प्रतिबंधित उपयोग के लिए है। अनुमोदन का प्रतिबंधित उपयोग उत्तरदायी दवा के उपयोग को रोकता है, जहां हर मरीज को उपचार शुरू करने से पहले सूचित सहमति पर हस्ताक्षर करना आवश्यक होता है।

Source: <https://www.thehindu.com/sci-tech/health/glenmark-unveils-oral-antiviral-for-covid-19/article31878134.ece>

Q.10) हाल ही में, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बादशाही बाग क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में उजागर हुए शिवालिक अवसादों से स्टेगोडन (Stegodon) का एक जीवाश्म खोजा गया था। एक स्टेगोडन क्या है?

- a) यह हाथी की एक किस्म है जो आरंभिक काल (early age) में पाया जाता था।
- b) यह चार पैरों वाला शाकाहारी डायनासोर था।
- c) यह अब तक मौजूद सबसे बड़ा जलीय स्तनपायी (aquatic mammal) था।
- d) यह प्रजाति Blattodea का एक कीट है।

Q.10) Solution (a)

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बादशाही बाग क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में उजागर हुए शिवालिक अवसादों से एक हाथी के जीवाश्म की खोज की गई है।

जीवाश्म पाँच से आठ मिलियन वर्ष पुराना बताया गया है तथा यह शिवालिक श्रेणी के ढोक पठान गठन (dhok pathan formation) से संबंधित है। यह हाथी की एक किस्म है जो आरंभिक काल में पाया जाता था।

स्टेगोडनों की उपस्थिति उस समय के दौरान क्षेत्र में घने जंगलों और बहुत सारी नदी धारा प्रवाहों के अस्तित्व को दर्शाती है। अन्य जीवाश्म जो स्टेगोडनों के साथ मौजूद थे, जिराफ, घोड़ों और दरियाई घोड़ा थे।

जीवाश्म पर जड़ित बलुआ पत्थर प्रकृति में मध्यम दानेदार हैं। इस प्रकार की लिथोलॉजी (शैल संरचना) मध्य शिवालिक की विशेषता है।

जीवाश्म एशियाई और अफ्रीकी क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो पूर्व मियोसीन (Miocene) काल तक के हैं। प्लेइस्टोसिन (Pleistocene) के दौरान, वे एशिया और मध्य अफ्रीका के बड़े हिस्सों में रहते थे।

Source: <https://www.hindustantimes.com/india-news/fossils-of-stegodon-elephant-found-in-saharanpur-s-shivalik-range/story-a3YDohUmJqvcM5myrOZrwN.html>

Q.11) निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित है / हैं?

IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-3

भू-विरासत स्थल -

- | | राज्य |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. एरा मैटी डिब्लू (Erra Matti Dibbalu) - | आंध्र प्रदेश |
| 2. वर्कला क्लिफ (Varkala Cliff) - | गोवा |
| 3. राष्ट्रीय जीवाश्म लकड़ी उद्यान (National Fossil Wood Park) - | राजस्थान |

सही कूट का चयन करें:

- केवल 1
- 1 और 2
- 2 और 3
- 1,2 और 3

Q.11) Solution (a)

एरा मैटी डिब्लू - आंध्र प्रदेश

वर्कला क्लिफ - केरल

राष्ट्रीय जीवाश्म लकड़ी उद्यान - तमिलनाडु

Q.12) निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 'गोल्डन लंगूर' (Golden Langurs) के लिए जाना जाता है?

- चक्रशिला वन्यजीव अभयारण्य
- कंबालाकोडा वन्यजीव अभयारण्य
- ईगलनेस्ट वन्यजीव अभयारण्य
- बोर वन्यजीव अभयारण्य

Q. 12) Solution (a)

चक्रशिला वन्यजीव अभयारण्य असम में स्थित है और गोल्डन लंगूर के लिए जाना जाता है।

Q. 13) 'अब्दुल हमीद लाहौरी' के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है / हैं?

- उन्होंने शाहजहाँ के शासनकाल के बारे में बादशाहनामा नामक पुस्तक लिखी।
- वह अकबर के काल में एक यात्री और इतिहासकार था।

सही कथनों का चयन करें

- केवल 1
- केवल 2
- दोनों 1 और 2
- न तो 1 और न ही 2

Q. 13) Solution (a)

वह मुगल बादशाह शाहजहाँ की अवधि के दौरान एक यात्री और इतिहासकार था जो बाद में शाहजहाँ (शाहजहाँ का आधिकारिक इतिहास अभिलेखन) का दरबारी इतिहासकार बन गया था। उन्होंने शाहजहाँ के शासनकाल के बारे में बादशाहनामा नामक पुस्तक लिखी थी।

Q. 14) 'टैकिन' (Takin) एक खुर वाला स्तनपायी (ungulate) है जो निम्नलिखित जैव रिज़र्व में पाया जाता है?

- शेषाचलम पहाड़ी
- कच्छ का महान रण
- दिहांग-दिबांग
- मन्नार की खाड़ी

IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-3

Q. 14) Solution (c)

यह पूर्वी हिमालय में पाए जाने वाले उपपरिवार Caprinae के खुर वाले स्तनपायी (ungulate) की एक बड़ी प्रजाति है।

इसकी चार उप-प्रजातियां हैं, मिश्री टैकिन (B. t. taxicolor), गोल्डन टैकिन (B. t. bedfordi), तिब्बती (या सिचुआन) टैकिन (B. t. tibetana), और भूटान टैकिन (B. t. whitei)।

मिश्री टैकिन पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में पायी जाती है, जबकि भूटान टैकिन पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश और भूटान में मिलती हैं। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग-दिबांग जैवमंडल रिजर्व में, मिश्री, ऊपरी सियांग (कोपू) और भूटान टैकिन दोनों मिलते हैं।

Q. 15) संयुक्त राज्य अमेरिका ट्रेजरी प्रतिभूतियों (US Treasury Securities) का सबसे बड़ा विदेशी धारक निम्नलिखित में से कौन सा देश है?

- a) जापान
- b) भारत
- c) चीन
- d) स्विट्जरलैंड

Q. 15) Solution (a)

जापान सबसे बड़ा धारक है। भारत 12 वें स्थान पर है।

Source: <https://economictimes.indiatimes.com/markets/bonds/india-becomes-12th-largest-holder-of-us-govt-securities/articleshow/76494079.cms>

Q.16) 'सेनकाकू द्वीप' (Senkakau Islands) समूह हाल ही में समाचारों में था। यह कहाँ स्थित है?

- a) दक्षिण चीन सागर
- b) पूर्वी चीन सागर
- c) पीला सागर
- d) जापान सागर

Q.16) Solution (b)

सेनकाकू द्वीप पूर्वी चीन सागर में निर्जन द्वीपों का एक समूह है। वे मुख्यभूमि चीन के पूर्व में, ताइवान के उत्तर-पूर्व में, ओकिनावा द्वीप के पश्चिम में और रयुकू द्वीप के दक्षिण-पश्चिम छोर के उत्तर में स्थित हैं।

चीन और जापान दोनों निर्जन द्वीपों पर अधिकार का दावा करते हैं, जिन्हें चीन में डियाओ और जापान में सेनकाकू के रूप में जाना जाता है, लेकिन जापान ने 1972 से इस क्षेत्र का प्रशासन किया है।

सेनकाकू द्वीपों को प्राकृतिक संसाधनों, समृद्ध मछली पकड़ने के मैदानों की प्रचुरता के लिए जाना जाता है तथा माना जाता है कि इनमें तेल का भंडार भी मौजूद है। यह रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों के करीब है।



Source: <https://www.hindustantimes.com/world-news/after-face-off-with-india-china-embroiled-in-maritime-dispute-with-japan/story-aPSWNmYndKkepeuf4tYDGL.html>

Q.17) निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है / हैं?

1. सदन के एक निर्वाचित सदस्य को सदस्य होने से अयोग्य घोषित किया जा सकता है यदि वह एक पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतता है और फिर दूसरे दल में शामिल होता है।
2. दलबदल-रोधी कानून को 42वें संविधान (संशोधन) अधिनियम, 1976 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था।

सही कथनों का चयन करें

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.17) Solution (a)

संविधान की दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 2 (1) (ए) के अनुसार, सदन के एक निर्वाचित सदस्य सदस्य होने के कारण अयोग्य घोषित किया जाएगा यदि वे एक पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतते हैं और फिर दूसरे दल में शामिल होते हैं। इस अयोग्यता के निर्धारण की शक्ति अध्यक्ष में निहित होती है, जो आमतौर पर सत्तारूढ़ पार्टी का एक उम्मीदवार होता है। दलबदल रोधी कानून, जिसे दसवीं अनुसूची के रूप में जाना जाता है, को संविधान में 52वें संविधान (संशोधन) अधिनियम, 1985 के माध्यम से जोड़ा गया था।

Source: <https://indianexpress.com/article/explained/explained-how-manipur-defections-put-focus-on-powers-to-speakers-to-disqualify-6472904/>


IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-3

Q.18) पृथ्वी पर किसी भी स्थान के एंटीपोडस (Antipodes) पृथ्वी की सतह पर स्थित वे बिंदु हैं जो कि एक-दूसरे के विपरीत हैं। दो बिंदु जो एक दूसरे के लिए एंटीपोडल हैं, पृथ्वी के केंद्र के माध्यम से चलने वाली एक सीधी रेखा से जुड़े हुए हैं। यदि आप एक बिंदु के नीचे सीधे सुरंग के लिए जाते हैं, तो आप अभी भी उसी बिंदु से बाहर आएंगे। यह कौन सी विशाल इकाई है?

- अंटार्कटिका
- हिन्द महासागर
- रूस
- प्रशांत महासागर

Q.18) Solution (d)

This straight line through the Pacific Ocean




Covers half the Earth

Q.19) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर की पहचान करें।

- यह कजाकिस्तान और उजबेकिस्तान के बीच स्थित है तथा इसका अर्थ 'द्वीपों का सागर' (Sea of Islands) है
- 2014 तक, झील लगभग पूरी तरह से सूख गई थी, जिसने अपने पीछे एक विशालकाय कब्रिस्तान को छोड़ दिया गया था जहां ऊंट मृत सड़ी मछलियों के अवशेषों के आसपास चल रहे हैं।

सही कूट का चयन करें:

- कैस्पियन सागर
- अरल सागर
- मृत सागर
- मरमारा सागर



Q.19) Solution (b)

अरल सागर कजाकिस्तान और उजबेकिस्तान के बीच स्थित है और इसका अर्थ 'द्वीपों का सागर' है, जो समुद्र में उपस्थित एक हजार से अधिक द्वीपों को संदर्भित करता था।

यह संसार की चौथी सबसे बड़ी झील हुआ करती थी, लेकिन 1960 के बाद से सिकुड़ रही है, क्योंकि जिन नदियों का प्रयोग इसे पोषित करने के लिए किया गया था, उन्हें रूसी सिंचाई परियोजनाओं द्वारा डायवर्ट किया गया है।

IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-3

2014 तक, झील लगभग पूरी तरह से सूख गई थी, जिसने अपने पीछे एक विशालकाय कब्रिस्तान को छोड़ दिया गया था जहां ऊंट मृत सड़ी मछलियों के अवशेषों के आसपास चल रहे हैं।



Q.20) 'शस्त्र व्यापार संधि (Arms Trade Treaty- ATT)' के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. यह पारंपरिक हथियारों- छोटे हथियारों से लेकर युद्धक टैंक, लड़ाकू विमानों और युद्धपोतों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है।
2. यह 2014 में भारत द्वारा हस्ताक्षरित और अनुसमर्थित है।

सही कथनों का चयन करें

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.20) Solution (a)

शस्त्र व्यापार संधि (ATT) एक बहुपक्षीय संधि है जो पारंपरिक हथियारों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करती है।

यह 4 दिसंबर 2014 को लागू हुई। 105 राज्यों ने संधि की पुष्टि की है, और साथ ही, 32 अन्य राज्यों ने हस्ताक्षर किए हैं लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की है। भारत ने एटीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और न ही इसकी पुष्टि की है।

संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पिछले वर्ष निकल जाने के बाद चीन ने हथियारों की बिक्री के नियमों पर एक वैश्विक संधि में शामिल होने का निर्णय किया है, जो कि विनियमित अंतरराष्ट्रीय हथियारों के व्यापार को संबोधित करने की इच्छा दिखा रहा है।

IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-3

Q.21) 'समुद्र तल 2030' (Seabed 2030) परियोजना के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. परियोजना का उद्देश्य प्रवाल विरंजन को रोकना है।
2. यह वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (WWF) और ग्लोबल कोरल रीफ एलायंस के बीच एक सहयोगी परियोजना है।

सही कथनों का चयन करें

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.21) Solution (d)

समुद्र तल 2030 (Seabed 2030), GEBCO और निप्पॉन फाउंडेशन के बीच एक सहयोगात्मक परियोजना है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक वैश्विक महासागर तल के पूर्ण मानचित्रण की सुविधा प्राप्त करना है।

Source: <https://indianexpress.com/article/explained/mapping-the-ocean-floor-6473482/>

Q.22) गौतम बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया

- a) बोध गया
- b) सारनाथ
- c) कुशीनगर
- d) लुम्बिनी

Q.22) Solution (c)

कुशीनगर एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल है, जहाँ बौद्धों का मानना है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पश्चात् परिनिर्वाण प्राप्त किया था।

Source: <https://pib.gov.in/PressReleaseDetailm.aspx?PRID=1633893>

Q.23) 'गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM)' किसके तत्वावधान में है

- a) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
- b) वित्त मंत्रालय
- c) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
- d) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

Q.23) Solution (c)

वाणिज्य मंत्रालय ने सरकार के लिए एक खुला और पारदर्शी खरीद मंच बनाने के उद्देश्य से, अगस्त 2016 में गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM), सार्वजनिक खरीद के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया।

Source: <https://indianexpress.com/article/business/economy/government-e-marketplace-make-in-india-6472162/>

Q.24) निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है?

1. दिल्ली
2. पुडुचेरी
3. लद्दाख

IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-3

4. जम्मू और कश्मीर

सही कूट चुनें:

- a) 1 और 2
- b) 1, 2 और 3
- c) 1, 2 और 4
- d) 1, 2, 3 और 4

Q.24) Solution (c)

नौ केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल तीन (दिल्ली, पुडुचेरी तथा जम्मू और कश्मीर) का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है।

Q.25) द्रवित मोम प्रक्रिया (lost wax process) एक विशिष्ट तकनीक है, जिसका उपयोग किन वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है

- a) धातु (Metal)
- b) लकड़ी
- c) ऊन
- d) कपास

Q.25) Solution (a)

द्रवित-मोम प्रक्रिया, जिसे cire-perdue भी कहा जाता है, धातु की ढलाई की विधि है, जिसमें पिघली हुई धातु को एक साँचे में डाला जाता है जिसे मोम मॉडल के माध्यम से बनाया गया है। एक बार पिघली धातु के मोम मॉडल में प्रवेश करने से धातु मॉडल आकर ग्रहण कर लेती है, तथा मोम पिघल जाता है और बाहर बह जाता है।

Q.26) निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से मिलती है?

- 1. त्रिपुरा
- 2. नागालैंड
- 3. मिजोरम
- 4. मणिपुर

सही कूट चुनें:

- a) 1, 2, और 3
- b) 2, 3 और 4
- c) 1, 3 और 4
- d) 1, 2 और 4

Q.26) Solution (b)


भारतीय राज्य जिनकी म्यांमार से सीमा मिलती है - अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, म्यांमार, नागालैंड

Q.27) 'ऊर्ध्वाधर खेती' (Vertical Farming) के निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं?

- 1. अधिकतम फसल उपज (Crop Yield)
- 2. निम्न कार्बन प्रिंट
- 3. न्यूनतम पानी का उपयोग

सही कूट चुनें:

- a) 1 और 2
- b) 2 और 3



IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-3

- c) 1 और 3
- d) उपरोक्त सभी

Q.27) Solution (d)

ऊर्ध्वाधर खेती के कई लाभ हैं जैसे कि यह अधिकतम फसल उपज की अनुमति देता है। इसका अर्थ यह है कि ऊर्ध्वाधर खेती पूरे वर्ष में फसलों को उगाने की अनुमति देती है, क्योंकि यह मौसम पर निर्भर नहीं रहती है।

एक और लाभ यह है कि यह परिवहन लागत को कम करती है क्योंकि यह परिवहन के लिए सस्ता होगी क्योंकि आप शहरों में भी ऊर्ध्वाधर खेतों का निर्माण कर सकते हैं, इसलिए आपको अन्य क्षेत्रों से फसलों को आयात करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह पर्यावरण के अनुकूल है क्योंकि परिवहन की आवश्यकता कम होने से प्रदूषण कम होता है।

एक और लाभ यह है कि यह बहुत कम पानी का उपयोग करती है। चूंकि पानी का उपयोग नियंत्रित तरीके से किया जाता है, इसलिए पानी का नुकसान बहुत कम होता है। ऊर्ध्वाधर खेती में केवल 10% पानी का उपयोग होता है जो पारंपरिक खेती के तरीकों का उपयोग करता है।

Q.28) हाल ही में 'ऑक्टोक्रिलीन (Octocrylene- OC)' किसके संदर्भ में समाचारों में था

- a) प्रवाल भित्ति (Coral Reefs)
- b) टिड्डियों (Locusts)
- c) मुर्गी पालन
- d) मछली संरक्षण

Q.28) Solution (a)

ऑक्टोक्रिलीन (OC), जो कुछ सौंदर्य प्रसाधनों और बालों के उत्पादों में उपयोग किया जाता है, प्रवाल में वसीय अम्ल एस्टर के रूप में जमा होता है जो समुद्री जीव के लिए विषाक्त हो सकता है।

Q.29) 'जलवायु महत्वाकांक्षा गठबंधन' (Climate Ambition Alliance) के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. यह देशों, व्यवसायों, निवेशकों, शहरों और क्षेत्रों को एक साथ लाता है जो 2050 तक शुद्ध-शून्य CO₂ उत्सर्जन प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं।
2. भारत गठबंधन का हिस्सा नहीं है।

सही कथनों का चयन करें

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.29) Solution (c)

जलवायु महत्वाकांक्षा गठबंधन देशों, व्यवसायों, निवेशकों, शहरों और क्षेत्रों को एक साथ लाता है जो 2050 तक शुद्ध-शून्य CO₂ उत्सर्जन को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इस गठबंधन में देश की भागीदारी का नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन और UNDP के समर्थन के साथ चिली और यूनाइटेड किंगडम की सरकारें कर रही हैं।

UNFCCC के अंतर्गत एक सामूहिक इकाई के रूप में यूरोपीय संघ (EU) को छोड़कर, इसके कुछ सदस्य राष्ट्र जैसे फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम और स्पेन, 73 की सूची में अधिकांश अन्य छोटे विकासशील और द्वीप राष्ट्र हैं जिनका उत्सर्जन संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और भारत जैसे बड़े उत्सर्जकों की तुलना में नगण्य है।

रेस टू जीरो अभियान (Race to Zero campaign) अग्रणी नेटवर्क की एक साझेदारी है तथा विज्ञान द्वारा संचालित जलवायु कार्रवाई समुदाय की ओर से पहल है।

IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-3

Q.30) 'उत्सर्जन गैप रिपोर्ट' (Emissions Gap Report) किसके द्वारा जारी किया गया है

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण
- अंतर-राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पैनल
- प्रकृति संरक्षण के लिए अंतराष्ट्रीय संघ
- प्रकृति के लिए विश्वव्यापी निधि (WWF)

Q.30) Solution (a)

इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा जारी किया गया है

STATIC QUIZ

Q.1) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

- संविधान के अनुसार, संघ के लिए संसद में राष्ट्रपति और दोनों सदन शामिल होंगे।
- अमेरिकी राष्ट्रपति को संयुक्त राज्य कांग्रेस का घटक नहीं माना जाता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

- केवल 1
- केवल 2
- दोनों 1 और 2
- न तो 1 और न ही 2

Q.1) Solution (d)

अनुच्छेद 79:

संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और दोनों सदन क्रमशः राज्यों की परिषद (राज्य सभा) और लोक सभा होगी।

इसलिए कथन 1 सही है।

अमेरिकी राष्ट्रपति को संयुक्त राज्य कांग्रेस का घटक नहीं माना जाता है। यहाँ कार्यकारी और विधायिका का कठोर पृथक्करण देखा जाता है।

इसलिए कथन 2 सही है।


Q.2) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

- संविधान कहता है कि राज्यों की परिषद (राज्य सभा) में प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधियों का चुनाव केंद्र शासित प्रदेश की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाएगा।
- राज्यसभा के सेवानिवृत्त मनोनीत सदस्य अधिकतम तीन बार पुनः नामांकन के लिए पात्र होते हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- केवल 1
- केवल 2
- दोनों 1 और 2
- न तो 1 और न ही 2

Q.2) Solution (d)



IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-3

संविधान कहता है कि राज्यों की परिषद में प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधियों को इस तरह से चुना जाएगा जैसा कि संसद कानून द्वारा वर्णित करती है।

इसलिए कथन 1 गलत है।

सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य कितनी भी बार पुनः चुनाव और नामांकन के लिए पात्र होते हैं। इसपर कोई प्रतिबंध नहीं है।

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q.3) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. संविधान के अनुसार राज्य सभा के सदस्यों के पद का कार्यकाल छह वर्ष निर्धारित किया जाता है।
2. अधिकृत होने के बावजूद, संसद ने संसद की सदस्यता के लिए कोई अतिरिक्त योग्यता नहीं रखी है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.3) Solution (d)

संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों के पद का कार्यकाल तय नहीं किया है तथा इसे संसद पर छोड़ दिया है।

इसलिए कथन 1 गलत है।

संसद की सदस्यता के लिए संवैधानिक योग्यता के अलावा संसद ने जनप्रतिनिधित्व कानून (1951) में कुछ अतिरिक्त योग्यताएँ सम्मिलित की हैं।

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q.4) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान () कर सकते हैं।
2. राज्य सभा के सभापति के पास मत डालने का अधिकार होता है (बराबर के मामले में, जब उप-राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव मतदान के लिए लिया जाता है)।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?


- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.4) Solution (b)

भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान (prorogue) कर सकते हैं, लेकिन केवल लोकसभा को भंग (dissolve) कर सकते हैं।

इसलिए कथन 1 सही है।

सभापति को बोलने का अधिकार होगा, और अन्यथा, जब उप-राष्ट्रपति को उनके कार्यालय से हटाने का कोई भी प्रस्ताव परिषद में विचाराधीन हो, राज्य सभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा, लेकिन यह अनुच्छेद 100 से संबंधित नहीं होगा तथा इस तरह की कार्यवाही के दौरान इस तरह के संकल्प या किसी अन्य मामले पर मत देने का अधिकार नहीं होगा।



IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-3

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q.5) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. संविधान संसद के दोनों सदनों के लिए समान (common) पदों (सचिवीय कर्मचारियों) के सृजन के लिए एक कठोर रोकथाम हेतु प्रावधान प्रदान करता है।
2. सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान अध्यक्ष मतों की समानता के मामले में एक निर्णायक मत डालते हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.5) Solution (b)

अनुच्छेद 98 (1)

संसद के प्रत्येक सदन में एक पृथक सचिवीय स्टाफ होगा:

बशर्ते कि संसद के दोनों सदनों में समान पदों के सृजन को रोकने के रूप में इस खंड में कुछ भी नहीं कहा गया है।

इसलिए कथन 1 गलत है।

अनुच्छेद 100 (1)

संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुसार, सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान अध्यक्ष मतों की समानता के मामले में एक निर्णायक मत डालेगा।

अध्यक्ष या सभापति, या इस तरह के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति होंगे, जो पहली बार में मत नहीं डालेंगे, लेकिन मतों की समानता के मामले में एक निर्णायक मत डालेंगे।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q.6) सदन के कार्य संचालन के स्थगन प्रस्ताव (adjournment motion) के अधिकार के संदर्भ में, निम्नलिखित कथन पर विचार करें:

1. यह एक ऐसा मामला उठाना चाहिए जो निश्चित, तथ्यात्मक, आवश्यक और सार्वजनिक महत्व का हो।
2. यह एक से अधिक मामलों को कवर नहीं करना चाहिए।
3. इसे किसी ऐसे मामले से संबंधित नहीं होना चाहिए, जो न्यायालय में विचाराधीन हो।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 1 और 3
- c) केवल 2 और 3
- d) 1, 2 और 3

Q.6) Solution (d)

स्थगन प्रस्ताव संसद में तत्काल सार्वजनिक महत्व के एक निश्चित मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

यह एक ऐसा मामला उठाना चाहिए जो निश्चित, तथ्यात्मक, जरूरी और सार्वजनिक महत्व का हो।

IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-3

इसलिए कथन 1 सही है।

यह एक से अधिक मामलों को कवर नहीं करना चाहिए।

इसलिए कथन 2 सही है।

इसे किसी ऐसे मामले से संबंधित नहीं होना चाहिए, जो न्यायालय में विचाराधीन हो।

इसलिए कथन 3 सही है।

Q.7) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयक या धन विधेयक पर लागू होती है।
2. राज्यसभा के सभापति, लोक सभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.7) Solution (c)

संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयकों या वित्तीय विधेयकों पर लागू होती है, न कि धन विधेयकों या संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर।

इसलिए कथन 1 गलत है।

यदि लोक सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष संयुक्त बैठक से अनुपस्थित रहते हैं, तो राज्यसभा के उप सभापति अध्यक्षता करते हैं। राज्य सभा के सभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करते हैं क्योंकि वह संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं।

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q.8) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत व्यय (charged expenditure) संसद द्वारा गैर-मतदान योग्य होता है।
2. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन भारत के भारत व्यय की श्रेणी में आती है।
3. ऋण, जिसके लिए भारत सरकार उत्तरदायी है, भारत के भारत व्यय की श्रेणी में आता है।


ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 1 और 3
- c) केवल 2 और 3
- d) 1, 2 और 3

Q.8) Solution (d)

भारत व्यय संसद द्वारा गैर-मतदान योग्य है, इसपर केवल संसद द्वारा चर्चा की जा सकती है।

इसलिए कथन 1 सही है।



IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-3

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और पेंशन तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की केवल पेंशन भारत के भारत व्यय की श्रेणी में आते हैं।

इसलिए कथन 2 सही है।

ऋण, जिसके लिए भारत सरकार उत्तरदायी है, भारत के भारत व्यय की श्रेणी में आता है।

इसलिए कथन 3 सही है।

Q.9) निम्नलिखित में से किसे भारत के सार्वजनिक खाते (Public Account) में जमा किया जाता है?

1. भविष्य निधि जमा
2. ट्रेजरी बिल जारी करके संग्रहित ऋण
3. प्रेषण (Remittances)
4. बचत बैंक जमा

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

- a) केवल 1 और 3
- b) केवल 1, 3 और 4
- c) केवल 2 और 4
- d) 1, 2, 3 और 4

Q.9) Solution (b)

भारत का सार्वजनिक खाता: भारत सरकार की ओर से या उसके द्वारा प्राप्त सभी अन्य सार्वजनिक धन (भारत के समेकित निधि में जमा किए गए धन के अतिरिक्त) को भारत के सार्वजनिक खाते में जमा किया जाएगा।

इसमें भविष्य निधि जमा, न्यायिक जमा, बचत बैंक जमा, विभागीय जमा, प्रेषण शामिल होते हैं।

Q.10) भारत की आकस्मिकता निधि (Contingency Fund) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इस निधि को राष्ट्रपति के निपटान में रखा गया है, तथा वह अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए इसका प्रयोग कर सकता है।
2. इस निधि में समय-समय पर कानून द्वारा निर्धारित राशि को जमा किया जाता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2


Q.10) Solution (d)

इस निधि को राष्ट्रपति के निपटान में रखा गया है, तथा वह अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए इसका प्रयोग कर सकता है।

इसलिए कथन 1 सही है।

संविधान ने 'भारत की आकस्मिकता निधि' की स्थापना के लिए संसद को अधिकृत किया है, जिसमें कानून द्वारा निर्धारित राशियों को समय-समय पर जमा किया जाता है।

इसलिए कथन 2 सही है।



IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-3

Q. 11) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. सामाजिक बहिष्कार (Social exclusion) एक माप है, जो आने वाले वर्षों में कुछ समुदायों या कुछ व्यक्तियों के गरीब होने, या बने रहने की अधिक संभावना का वर्णन करता है।
2. प्रति व्यक्ति आय अमीर और गरीब के बीच असमानताओं को नहीं दर्शाती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.11) Solution (a)

गरीबी के लिए सुभेद्यता (Vulnerability) एक माप है, जो आने वाले वर्षों में कुछ समुदायों या कुछ व्यक्तियों के गरीब होने, या बने रहने की अधिक संभावना का वर्णन करता है।

सामाजिक बहिष्कार (social exclusion) की अवधारणा के अनुसार, गरीबी को अन्य गरीब लोगों के साथ, खराब परिवेश में रहने के संदर्भ में देखा जाता है, जिन्हें बेहतर परिवेश में बेहतर लोगों की सामाजिक समानता का आनंद लेने से बाहर रखा गया है।

इसलिए कथन 1 गलत है।

प्रति व्यक्ति आय अपनी कुल जनसंख्या से विभाजित देश की कुल आय होती है। प्रति व्यक्ति आय अमीर और गरीब के बीच असमानताओं को नहीं दर्शाती है।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q. 12) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. जीवन स्तर, बहुआयामी गरीबी सूचकांक द्वारा उपयोग किए जाने वाले तीन आयामों में से एक है।
2. वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक विश्व बैंक द्वारा 2010 में विकसित किया गया था।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 12) Solution (a)


बहुआयामी गरीबी सूचकांक द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर तीन प्रमुख आयाम हैं।

इसलिए कथन 1 सही है।

वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक को 2010 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल (OPHI) तथा प्रमुख मानव विकास रिपोर्ट के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय द्वारा विकसित किया गया था।

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q. 13) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें



IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-3

1. ग्रेट गैट्सबी वक्र (Great Gatsby Curve) एक पीढ़ी में धन की एकाग्रता और अंतर-पीढ़ी आर्थिक गतिशीलता (intergenerational economic mobility) पर इसके प्रभाव के बीच सहसंबंध प्रदान करता है।
2. प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय मानव विकास सूचकांक की गणना में प्रयुक्त संकेतकों में से एक है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 13) Solution (c)

ग्रेट गैट्सबी वक्र एक पीढ़ी में धन की एकाग्रता और अंतर-पीढ़ी आर्थिक गतिशीलता पर इसके प्रभाव के बीच सहसंबंध प्रदान करता है।

इसलिए कथन 1 सही है।

जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्कूल जाने की आशा के वर्ष, स्कूली पढ़ाई के वर्ष, सकल राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति मानव विकास सूचकांक की गणना में संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q. 14) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. देश के GVA (सकल मूल्य वर्धित) में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की हिस्सेदारी 2014-15 के स्तर से घट गई है।
2. 2018 में, चीन के बाद भारत तैयार स्टील (finished steel) का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 14) Solution (b)

देश के GVA (सकल मूल्य वर्धित) में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की हिस्सेदारी 2014-15 के स्तर से घट गई है। (2014-15 में 18.2% से 2019-20 में 16.5%)

इसलिए कथन 1 सही है।

2018 में, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत तैयार स्टील का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है।


इसलिए कथन 2 गलत है।

Q. 15) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सेवा क्षेत्र के अंतर्गत कुल निर्यात का 15% हिस्सा है।
2. सेवा क्षेत्र के अंतर्गत देश के GVA का 75% हिस्सा है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1



IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-3

- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 15) Solution (d)

सेवा क्षेत्र के अंतर्गत कुल निर्यात का 38 % हिस्सा है।

इसलिए कथन 1 गलत है।

सेवा क्षेत्र में देश के GVA का 55% हिस्सा है।

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q. 16) क्रय शक्ति समता (PPP) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. यह विभिन्न मुद्राओं के सापेक्ष मूल्य को निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक है।
2. यह अवधारणा इस धारणा पर काम करती है कि बाजार एक मूल्य के कानून (law of one price) पर काम करते हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 16) Solution (c)

क्रय शक्ति समता (PPP) एक तकनीक है जिसका उपयोग विभिन्न मुद्राओं के सापेक्ष मूल्य को निर्धारित करने के लिए किया जाता है।

इसलिए कथन 1 सही है।

यह अवधारणा इस धारणा पर काम करती है कि बाजार एक मूल्य के कानून पर काम करते हैं।

एक मूल्य का कानून, यानी, समान वस्तुओं और सेवाओं (मात्रा में और साथ ही गुणवत्ता) का एक ही मुद्रा में अलग-अलग बाजारों में समान मूल्य होना चाहिए।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q. 17) निम्न में से कौन सा / से सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष गुण (relative merits) हैं?

1. यह केंद्रीय बैंकों और नीति निर्माताओं को यह मूल्यांकन करने में सक्षम बनाता है कि अर्थव्यवस्था मंदी या मुद्रास्फीति में है।
2. प्रच्छन्न बेरोजगारी (Disguised Unemployment) वह स्थिति है, जहां लोग स्पष्ट रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें काम से हटा देने पर कार्य दक्षता प्रभावित नहीं होती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 17) Solution (d)

IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-3

समय के साथ जीडीपी वृद्धि केंद्रीय बैंकों और नीति निर्माताओं को यह मूल्यांकन करने में सक्षम बनाती है कि अर्थव्यवस्था मंदी या मुद्रास्फीति में है।

इसलिए कथन 1 सही है।

प्रच्छन्न बेरोजगारी:

प्रच्छन्न बेरोजगारी (Disguised Unemployment) वह स्थिति है, जहां लोग स्पष्ट रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें काम से हटा देने पर कार्य दक्षता प्रभावित नहीं होती है।

यह एक प्रकार की अल्प-बेरोजगारी है जो किसी ऐसे व्यक्ति के विपरीत छिपी हुई है जिसके पास नौकरी नहीं है और बेरोजगार के रूप में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q. 18) समष्टि अर्थशास्त्र (Macroeconomics) 4 क्षेत्रों के संयोजन के रूप में एक अर्थव्यवस्था को देखता है। नीचे दिए गए कूट से सही क्षेत्रों का चयन करें:

- भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी
- घरों (Households), फर्म (firms), सरकार, बाह्य क्षेत्र (external sector)
- उपभोक्ता (Consumer), उद्यमी, फर्म (firms), सरकार
- उपभोक्ता, फर्म (firms), सरकार, बाह्य क्षेत्र (external sector)

Q. 18) Solution (b)

- समष्टि अर्थशास्त्र (मैक्रोइकॉनॉमिक्स) एक अर्थव्यवस्था के कुल आर्थिक चर के साथ संबंधित है। यह विभिन्न अंतर संबंध को भी ध्यान में रखता है जो किसी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच मौजूद हो सकते हैं।
- समष्टि अर्थशास्त्र एक अर्थव्यवस्था को चार क्षेत्रों के संयोजन के रूप में देखता है, अर्थात् घर, फर्म, सरकार और बाह्य क्षेत्र।

Q. 19) सकल घरेलू उत्पाद (GDP) और सकल राष्ट्रीय आय (GNI) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

- पूर्णतः बंद अर्थव्यवस्था में जीडीपी = जीएनआई
- यदि उत्पादन प्रेषण (remittances) से कम है, तो GDP, GNI से अधिक होगा।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- केवल 1
- केवल 2
- दोनों 1 और 2
- न तो 1 और न ही 2

Q. 19) Solution (a)

एक पूर्णतः बंद अर्थव्यवस्था का बाह्य विश्व के साथ कोई संपर्क नहीं होता है, यह पूरी तरह से आत्मनिर्भर होती है, तथा इसका अन्य देशों के साथ कोई आयात या निर्यात नहीं होता है। तो, घरेलू क्षेत्र (जीडीपी) में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन उस देश के नागरिकों (GNI) द्वारा किया जाता है।

इसलिए कथन 1 सही है।

जीएनआई, जीडीपी से अधिक हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, यदि देश के सभी निवासी अपने देश के बाहर काम के लिए पलायन कर चुके हैं, तथा उत्पादन प्रेषण से कम है, तो जीएनआई जीडीपी से अधिक हो जाएगा।

इसलिए कथन 2 गलत है।

IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-3

Q.20) 'हरित' जीडीपी ('Green' GDP) के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है / हैं?

1. इसमें देश में उत्पादित कृषि वस्तुओं की कुल मात्रा शामिल है।
2. इसमें जैव विविधता की मुद्रीकृत हानि और जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली लागत भी शामिल है।

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें:

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 20) Solution (a)

हरित सकल घरेलू उत्पाद (ग्रीन जीडीपी या जीजीडीपी) देश की पारंपरिक जीडीपी में शामिल उस विकास के पर्यावरणीय परिणामों के साथ आर्थिक विकास का एक सूचकांक है।

इसलिए कथन 1 गलत है।

ग्रीन जीडीपी में जैव विविधता की हानि, और जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली लागतों को भी शामिल किया जाता है।

इसलिए कथन 2 सही है।

ग्रीन जीडीपी की गणना के लिए आवश्यक है कि शुद्ध प्राकृतिक पूंजी की खपत, जिसमें संसाधन की कमी, पर्यावरणीय निम्नीकरण तथा सुरक्षात्मक और पुनर्स्थापना संबंधी पर्यावरणीय पहल शामिल हैं, को पारंपरिक जीडीपी से घटाया जाए।

Q. 21) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. क्षणिक गरीब (Transient poor) वे हैं जो नियमित रूप से गरीबी में जाते हैं और इससे बाहर आते रहते हैं।
2. स्थायी गरीब (Churning poor), जो ज्यादातर समय अमीर रहते हैं, लेकिन किसी-किसी समय बुरी किस्मत का शिकार होकर गरीब हो सकते हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 21) Solution (c)

स्थायी गरीब (Churning poor) जो नियमित रूप से गरीबी में जाते हैं और इससे बाहर आते रहते हैं (उदाहरण: छोटे किसान और मौसमी मजदूर)

इसलिए कथन 1 गलत है।

क्षणिक गरीब (Transient poor) वे हैं, जो ज्यादातर समय अमीर होते हैं लेकिन कभी-कभी बदकिस्मती का शिकार होकर गरीब हो सकते हैं।

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q. 22) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. अर्थव्यवस्था में कुल औपचारिक रोजगार 2011-12 में 18 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 20 प्रतिशत हो गया।
2. मानव विकास सूचकांक (HDI) 2018 में भारत चीन से ऊपर है।

IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-3

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- केवल 1
- केवल 2
- दोनों 1 और 2
- न तो 1 और न ही 2

Q. 22) Solution (d)

अर्थव्यवस्था में कुल औपचारिक रोजगार 2011-12 में 8 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 9.98 प्रतिशत हो गया।

इसलिए कथन 1 गलत है।

भारत को मानव विकास सूचकांक (HDI) 2018 में चीन से नीचे स्थान दिया गया है। भारत की रैंक- 129, चीन की रैंक- 85) है

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q. 23) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

- 'स्वयं खाता श्रमिक' (Own account workers) वे हैं जिन्होंने मजदूरों को काम पर रखकर अपना उद्यम चलाया है।
- आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के अनुसार, अवैतनिक पारिवारिक श्रम स्व-नियोजित श्रेणी (self-employed category) के अंतर्गत आता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- केवल 1
- केवल 2
- दोनों 1 और 2
- न तो 1 और न ही 2

Q. 23) Solution (b)

'स्वयं खाता श्रमिकों' में वे शामिल होते हैं जिन्होंने अपने उद्यमों को अपने स्वयं द्वारा या एक या कुछ भागीदारों के साथ संचालित किया तथा संदर्भ अवधि के दौरान किसी भी श्रमिक को काम पर रखे बिना अपने उद्यम को चलाया है, जबकि नियोजित वे स्वयं खाता श्रमिक हैं जिन्होंने मजदूरों को काम पर रखकर अपने उद्यम को चलाया है।

इसलिए कथन 1 गलत है।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के अनुसार अवैतनिक पारिवारिक श्रम स्व-नियोजित श्रेणी के अंतर्गत आता है।


अवैतनिक परिवार के मजदूरों / सहायकों में वे लोग शामिल थे जो अपने घरेलू उद्यमों में लगे हुए थे, पूर्ण या अंशकालिक काम कर रहे थे तथा संदर्भ अवधि के दौरान किए गए कार्यों के बदले में उन्हें कोई नियमित वेतन या मजदूरी नहीं मिलती है।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q. 24) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) अधिक है।
- उत्पादक आयु वर्ग (productive age group) के लिए महिला श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) में 2011-12 के स्तर की तुलना में 2017-18 में गिरावट देखी गई है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?



IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-3

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 24) Solution (d)

शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रम बल भागीदारी दर अधिक है।

इसलिए कथन 1 सही है।

NSO-EUS और PLFS के अनुमानों के अनुसार, सामान्य स्थिति के अनुसार उत्पादक आयु-समूह (15-59 वर्ष) के लिए महिला श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) में गिरावट का रुख दिखाई देता है। महिला श्रम बल की भागीदारी 2011-12 में 33.1 प्रतिशत से 7.8 प्रतिशत अंक घटकर 2017-18 में 25.3 प्रतिशत हो गई।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q. 25) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) प्रमुख कोर योजनाओं (Core of the Core schemes) में से एक है।
2. PMEGP योजना राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में कार्यरत खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा कार्यान्वित की जाती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 25) Solution (b)

प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में से एक है। (योजनाओं का वर्गीकरण- प्रमुख कोर योजनाएं (Core of the Core schemes), कोर योजनाएँ (Core Schemes), प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ (Central Sector schemes))

इसलिए कथन 1 गलत है।

PMEGP योजना राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में कार्यरत खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा कार्यान्वित की जाती है।

राज्य स्तर पर, यह योजना राज्य केवीआईसी निदेशालय, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी), जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) और बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q. 26) कालानुक्रमिक क्रम में गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में निम्नलिखित समितियों को व्यवस्थित करें:

1. लकड़वाला समिति
2. वाई. के. अलघ समिति
3. सी. रंगराजन समिति
4. सुरेश तेंदुलकर समिति

IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-3

5. एन. सी. सक्सेना समिति

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5
- 1 - 3 - 4 - 5 - 2
- 2 - 5 - 4 - 3 - 1
- 2 - 1 - 4 - 5 - 3

Q. 26) Solution (d)

1. वाई. के. अलघ समिति
2. लकड़वाला समिति
3. सुरेश तेंदुलकर समिति
4. एन. सी. सक्सेना समिति
5. सी. रंगराजन समिति

Q. 27) निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी मनरेगा (MGNREGA) विशेष श्रेणी के श्रमिकों के अंतर्गत आती है?

1. दिव्यांग व्यक्ति
2. आदिम (Primitive) जनजातीय समूह
3. विशेष परिस्थितियों में महिलाएं
4. 65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक
5. एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

- a) केवल 1, 2 और 4
- b) केवल 2, 3 और 4
- c) केवल 1, 2, 3 और 4
- d) 1, 2, 3, 4 और 5

Q. 27) Solution (d)

मनरेगा विशेष श्रेणियों की सूची:

- दिव्यांग व्यक्ति
- आदिम (Primitive) जनजातीय समूह
- खानाबदोश (Nomadic) जनजातीय समूह
- गैर-अधिसूचित जनजातियां (De-notified Tribes)
- विशेष परिस्थितियों में महिलाएं
- 65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक
- एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति
- आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति

Q. 28) मनरेगा के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. काम के लिए आवेदन के 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं दिए जाने पर दैनिक बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करना पड़ता है।
2. मनरेगा मजदूरों का जॉब कार्ड किसी भी परिस्थिति में रद्द नहीं किया जा सकता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2



IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-3

- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 28) Solution (a)

काम के लिए आवेदन के 15 दिनों के भीतर रोजगार दिया जाना है, अन्यथा दैनिक बेरोजगारी भत्ता संबंधित राज्य द्वारा भुगतान किया जाना है।

इसलिए कथन 1 सही है।

जॉब कार्ड को रद्द किया जा सकता है, जहां इसे डुप्लिकेट पाया जाता है, या यदि पूरा घर स्थायी रूप से ग्राम पंचायत के बाहर किसी स्थान पर चला गया है और अब गांव में नहीं रहता है, तो उसे रद्द किया जा सकता है।

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q. 29) गिनी गुणांक (Gini Coefficient) के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. यह आय वितरण की एक माप है तथा लॉरेंज वक्र से लिया गया है।
2. एक अमीर देश और एक गरीब देश का समान गिनी गुणांक हो सकता है।
3. गिनी गुणांक में शून्य (0), एक पूर्ण समानता को व्यक्त करता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 1 और 2
- c) केवल 2 और 3
- d) 1, 2 और 3

Q. 29) Solution (d)

गिनी गुणांक आय असमानता की एक माप है। इसे लॉरेंज वक्र से लिया गया है।

इसलिए कथन 1 सही है।

एक अमीर देश और एक गरीब देश का एक समान गिनी-गुणांक हो सकता है, क्योंकि यह पूर्ण आय के स्तर को नहीं मापता है, बल्कि धन के वितरण को मापता है।

इसलिए कथन 2 सही है।

गिनी गुणांक में शून्य (0) एक पूर्ण समानता को व्यक्त करता है, जहां सभी मूल्य समान हैं (उदाहरण के लिए, जहां सभी की आय समान है)। एक (1) पूर्ण असमानता का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि किसी भी देश का स्कोर 0 या 1 के बराबर नहीं होता है, वास्तविक आंकड़े इनमें बीच में कहीं न कहीं होते हैं।

इसलिए कथन 3 सही है।

Q.30) गरीबी पर रंगराजन समिति की रिपोर्ट के संदर्भ में, निम्नलिखित विवरणों पर विचार करें।

1. इसने पोषण के मानक स्तरों को प्राप्त करने के लिए ICMR मानदंडों के आधार पर कैलोरी, प्रोटीन और वसा की औसत आवश्यकताओं की गणना की।
2. रंगराजन समिति ग्रामीण और शहरी गरीबी की अलग-अलग गणना करने की तेंदुलकर समिति की पद्धति को अपना रही है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2

IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-3

- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 30) Solution (a)

विशेषज्ञ समूह (रंगराजन) ने पोषण के मानक स्तरों को प्राप्त करने के लिए अखिल भारतीय ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए आयु, लिंग और गतिविधि के आधार पर आईसीएमआर मानदंडों के आधार पर कैलोरी, प्रोटीन और वसा की औसत आवश्यकताओं की गणना की।

इसलिए कथन 1 सही है।

रंगराजन समिति ग्रामीण और शहरी गरीबी की अलग-अलग गणना करने के लकड़ावाला समिति के विचार को अपना रही है।

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q. 31) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. कोब्वेब सिद्धांत (Cobweb theory) सिद्धांत यह विचार है कि मूल्य में उतार-चढ़ाव से आपूर्ति में उतार-चढ़ाव हो सकता है जो बढ़ती और गिरती कीमतों के चक्र का कारण बनता है।
2. श्रम ब्यूरो द्वारा औद्योगिक श्रमिकों ((IW)) के लिए सीपीआई (CPI) संकलित किया गया है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 31) Solution (d)

कोब्वेब सिद्धांत यह विचार है कि मूल्य में उतार-चढ़ाव से आपूर्ति में उतार-चढ़ाव हो सकता है जो बढ़ती और गिरती कीमतों के चक्र का कारण बनता है।

इसलिए कथन 1 सही है।

औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) श्रम मंत्रालय में श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित की जाती है।

इसलिए कथन 2 सही है।


Q. 32) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. थोक मूल्य सूचकांक (WPI) की गणना करते समय ईंधन और विद्युत् समूह का भारांश सबसे अधिक होता है।
2. केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा कृषि मजदूरों (AL) के लिए CPI संकलित किया गया है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 32) Solution (d)



IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-3

थोक मूल्य सूचकांक (WPI) की गणना करते समय विनिर्मित उत्पादों (Manufacturing products) का सबसे अधिक भारांश होता है।

इसलिए कथन 1 गलत है।

कृषि श्रमिकों के लिए सीपीआई श्रम मंत्रालय द्वारा श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित किया जाता है।

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q. 33) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. मुद्रास्फीति का अर्थ, किसी अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि है।
2. अर्थव्यवस्था में अप्रत्याशित मुद्रास्फीति सामाजिक लक्ष्यों (social goals) की परवाह किए बिना धन का पुनर्वितरण करती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 33) Solution (b)

मुद्रास्फीति का अर्थ यह नहीं है कि अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं। एक मुद्रास्फीति की स्थिति में, कीमतों का औसत स्तर कुछ वस्तुओं के साथ बढ़ता है जहाँ कुछ वस्तुओं में अत्यधिक वृद्धि दिखाई देती है जबकि अन्य इस प्रक्रिया पालन नहीं करते हैं।

इसलिए कथन 1 गलत है।

अर्थव्यवस्था में अप्रत्याशित मुद्रास्फीति सामाजिक लक्ष्यों की परवाह किए बिना धन का पुनर्वितरण करती है। इसके परिणामी प्रभाव हो सकते हैं: निश्चित आय वाले श्रमिकों और कमजोर संघीकृत श्रमिकों से धन का प्रवाह दृढ़ता से संगठित श्रमिकों की ओर, ऋणदाताओं से उधारकर्ताओं की ओर, कर-दाताओं से सरकार की ओर, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों से निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की ओर, तथा लाभ-कमाने वालों से दिहाड़ी मजदूरों की ओर हो सकता है।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q. 34) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत सरकार के परामर्श से मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित किया जाता है।
2. 6 प्रतिशत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति 5 अगस्त, 2016 से 31 मार्च, 2021 की अवधि के लिए लक्ष्य है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 34) Solution (c)

मुद्रास्फीति का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा रिजर्व बैंक के परामर्श से, प्रत्येक पाँच वर्षों में एक बार निर्धारित किया जाता है।

इसलिए कथन 1 गलत है।

IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-3

केंद्र सरकार ने आधिकारिक गजट में 4 प्रतिशत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति को 5 अगस्त, 2016 से 31 मार्च, 2021 की अवधि के लिए 6 प्रतिशत की ऊपरी सहिष्णुता सीमा और 2 फीसदी की निचली सहिष्णुता सीमा के साथ अधिसूचित किया है।

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q. 35) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. जुलाई 2018 से, सीपीआई-शहरी मुद्रास्फीति लगातार सीपीआई-ग्रामीण मुद्रास्फीति से ऊपर रही है।
2. जुलाई 2019 से, ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में खाद्य मुद्रास्फीति बहुत अधिक दर्ज की गई है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 35) Solution (c)

जुलाई 2018 से, सीपीआई-शहरी मुद्रास्फीति लगातार सीपीआई-ग्रामीण मुद्रास्फीति से ऊपर रही है। यह पहले के अनुभव के विपरीत है जहां ग्रामीण मुद्रास्फीति ज्यादातर शहरी मुद्रास्फीति की तुलना में अधिक रही थी।

इसलिए कथन 1 सही है।

जुलाई 2019 से, ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में खाद्य मुद्रास्फीति बहुत अधिक दर्ज की गई है।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q. 36) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. मंदी (recession) के हल्के रूप को डिप्रेशन (depression) के रूप में जाना जाता है।
2. मूल्य अपस्फीति (Price deflation), वित्तीय संकट, शेयर बाजार विघटन और बैंक विफलताएं मंदी के सामान्य तत्व हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 36) Solution (d)

अर्थशास्त्र में, एक डिप्रेशन (depression) एक या एक से अधिक अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक गतिविधि में निरंतर, दीर्घकालिक गिरावट है। यह मंदी की तुलना में अधिक गंभीर आर्थिक मंदी है।

इसलिए कथन 1 गलत है

मूल्य अपस्फीति, वित्तीय संकट, शेयर बाजार विघटन और बैंक विफलताएं एक डिप्रेशन के सामान्य तत्व हैं जो आमतौर पर मंदी के दौरान नहीं होते हैं।

इसलिए कथन 2 गलत है

Q. 37) मंदी से उबरने के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अपनाया जाता है?

IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-3

1. प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में कटौती की जानी चाहिए।
2. वेतन और मजदूरी को सरकार द्वारा संशोधित किया जाना चाहिए।
3. सरकार आमतौर पर एक महंगी मुद्रा आपूर्ति नीति (dear money supply policy) का पालन करती है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

- a) केवल 1
- b) केवल 1 और 2
- c) केवल 1 और 3
- d) 1, 2 और 3

Q. 37) Solution (b)

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में कटौती की जानी चाहिए, ताकि उपभोक्ताओं को अधिक व्यय योग्य आय (disposable incomes) हो

इसलिए कथन 1 सही है

उपभोक्ताओं द्वारा सामान्य खर्च को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा वेतन और मजदूरी को संशोधित किया जाना चाहिए

इसलिए कथन 2 सही है

सरकार आमतौर पर सभी माध्यम से ब्याज दरों में कमी करके एक सस्ती मुद्रा आपूर्ति नीति का पालन करती है तथा ऋण देने की प्रक्रिया को भी उदार बनाया जाता है।

इसलिए कथन 3 गलत है

Q. 38) मौद्रिक नीति समिति (MPC) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. समिति में RBI के तीन अधिकारी तथा RBI के गवर्नर द्वारा नामित तीन बाहरी सदस्य शामिल होते हैं।
2. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 को वित्त अधिनियम (भारत), 2016 द्वारा MPC के गठन के लिए संशोधित किया गया था।
3. यदि मुद्रास्फीति लगातार तीन महीनों के लिए निर्धारित सीमा से अधिक होती है तो समिति RBI के प्रति जवाबदेह होगी।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) केवल 1 और 3
- d) 1, 2 और 3

Q. 38) Solution (b)

समिति में छह सदस्य शामिल हैं - भारतीय रिज़र्व बैंक के तीन अधिकारी और भारत सरकार द्वारा नामित तीन बाहरी सदस्य।

इसलिए कथन 1 गलत है

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 को वित्त अधिनियम (भारत), 2016 द्वारा संशोधित किया गया था जिसमें एमपीसी का गठन किया गया था जो भारत की मौद्रिक नीति को तय करने में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाएगा।

इसलिए कथन 2 सही है

यह समिति भारत सरकार के प्रति जवाबदेह है, यदि मुद्रास्फीति लगातार तीन महीनों के लिए निर्धारित सीमा से अधिक होती है

IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-3

इसलिए कथन 3 गलत है

Q. 39) थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है / हैं?

1. थोक मूल्य सूचकांक (WPI) एक थोक स्तर पर माल की कीमत का प्रतिनिधित्व करता है।
2. भारत थोक मूल्य सूचकांक (WPI) का उपयोग करता है जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका मुद्रास्फीति को मापने के लिए निर्माता मूल्य सूचकांक (Producer Price Index- PPI) का उपयोग करता है।
3. भारतीय WPI को आर्थिक सलाहकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

- a) केवल 3
- b) केवल 1 और 2
- c) केवल 2 और 3
- d) 1, 2 और 3

Q. 39) Solution (d)

थोक मूल्य सूचकांक (WPI) एक थोक स्तर पर माल की कीमत का प्रतिनिधित्व करता है यानी ऐसे सामान जिन्हें थोक में बेचा जाता है और उपभोक्ताओं के बजाय संगठनों के बीच कारोबार किया जाता है।

इसलिए कथन 1 सही है

WPI का उपयोग भारत में मुद्रास्फीति की एक महत्वपूर्ण माप के रूप में किया जाता है। WPI में परिवर्तन से राजकोषीय और मौद्रिक नीति परिवर्तन बहुत प्रभावित होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में, मुद्रास्फीति को मापने के लिए निर्माता मूल्य सूचकांक (PPI) का उपयोग किया जाता है।

इसलिए कथन 2 सही है

भारतीय WPI को आर्थिक सलाहकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

इसलिए कथन 3 सही है

Q.40) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO) की सिफारिशों के अनुसार, 2011-12 के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (NSC) ने GDP गणना के लिए आधार वर्ष अपडेट किया।
2. जीडीपी की गणना के लिए आधार वर्ष का परिवर्तन आर्थिक जानकारी को सही ढंग से जानने के लिए वैश्विक अभ्यास के अनुरूप किया गया है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 40) Solution (a)

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO) ने राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की सिफारिशों के अनुसार, 2011-12 को जीडीपी गणना के लिए आधार वर्ष के रूप में अपडेट किया है, जो 2004-05 के पुराने श्रृंखला आधार वर्ष का स्थान लेगा।

इसलिए कथन 1 गलत है

IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-3

आधार वर्ष में क्यों परिवर्तन किया गया?

जीडीपी की गणना के लिए आधार वर्ष का परिवर्तन आर्थिक जानकारी को सही ढंग से जानने के लिए वैश्विक अभ्यास के अनुरूप किया गया है। आदर्श रूप से, बदलती अर्थव्यवस्था को जानने के लिए हर पांच साल के बाद आधार वर्ष को बदला जाना चाहिए। 2004-05 के आधार पर जीडीपी ने वर्तमान आर्थिक स्थिति को सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं किया। नई श्रृंखला सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स -2008 में संयुक्त राष्ट्र के दिशानिर्देशों के अनुरूप भी है। यह कॉर्पोरेट क्षेत्र के लिए जानकारी लेता है और 2010-11 से असंगठित उद्यमों पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण तथा बिक्री और सेवा करों पर असंगठित क्षेत्र के डेटा से बेहतर अनुमान देता है।

इसलिए कथन 2 सही है

Q. 41) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. किसी बॉन्ड की कीमत बाजार की ब्याज दर से विपरीत संबंधित (inversely related) होती है।
2. मुद्रा की परिकल्पनी मांग (Speculative demand for money) ब्याज दर से विपरीत संबंधित (inversely related) होती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 41) Solution (d)

किसी बॉन्ड की कीमत बाजार की ब्याज दर से विपरीत संबंधित (inversely related) होती है।

इसलिए कथन 1 सही है।

मुद्रा की परिकल्पनी मांग (Speculative demand for money) ब्याज दर से विपरीत संबंधित (inversely related) होती है।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q. 42) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. सरकार के लिए नेट रिजर्व बैंक क्रेडिट में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ-साथ राज्य सरकारों के लिए रिजर्व बैंक का क्रेडिट भी शामिल होता है।
2. मांग जमा (Demand deposits) में सभी देयताएं शामिल होती हैं जो बिना दावों की जमाओं (unclaimed deposits) को छोड़कर मांग पर देय होती हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 42) Solution (a)

‘सरकार के लिए नेट रिजर्व बैंक क्रेडिट’ में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकारों के क्रेडिट शामिल होते हैं। इसमें सरकारों के लिए अर्थोपाय अग्रिम (ways and means advances), और ओवरड्राफ्ट, सरकारी प्रतिभूतियों की रिजर्व बैंक की होल्डिंग्स, तथा रिजर्व बैंक के पास रुपये के सिक्कों को छोड़कर रिजर्व बैंक के साथ संबंधित सरकार की जमा राशि शामिल होती हैं।

IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-3

इसलिए कथन 1 सही है।

'मांग जमा' (Demand deposits) में वे सभी देयताएं शामिल हैं जो मांग पर देय हैं तथा इनमें चालू जमा (करंट डिपॉजिट्स), बचत बैंक जमाओं की मांग देनदारियों का हिस्सा, क्रेडिट / गारंटी के पत्रों के सापेक्ष आयोजित मार्जिन, अतिदेय सावधि जमाओं में शेष राशि, नकद प्रमाणपत्र और संचयी / आवर्ती जमा, बकाया टेलीग्राफिक ट्रांसफर (TTs), मेल ट्रांसफर (MTs), डिमांड ड्राफ्ट (DDs), गैर-दावा जमा (unclaimed deposits), कैश क्रेडिट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस और डिपॉजिट के लिए सिक्योरिटी के तौर पर रखी गई जमाएं शामिल हैं, जो मांग पर देय होती हैं।

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q. 43) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. M2 और M3 को व्यापक मुद्रा (Broad money) के रूप में जाना जाता है।
2. 2009 से 2017-18 तक व्यापक मुद्रा (एम 3) की विकास दर घट रही है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 43) Solution (b)

M1 और M2 को संकीर्ण मुद्रा (narrow money) के रूप में जाना जाता है। M3 और M4 को व्यापक मुद्रा के रूप में जाना जाता है। यह स्तरीकरण तरलता (liquidity) के घटते क्रम में हैं।

इसलिए कथन 1 गलत है।

व्यापक मुद्रा (M3) की वृद्धि 2009 के बाद से गिरावट के रुझान पर रही है। हालांकि, 2018-19 के बाद से, इसमें मामूली वृद्धि हुई है, जो मुख्य रूप से कुल जमा में वृद्धि से प्रेरित है और दिसंबर 2019 तक 10.4 प्रतिशत थी।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q. 44) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. मुद्रा जमा अनुपात (currency deposit ratio) मुद्रा में जनता द्वारा रखी गई धनराशि का अनुपात है जो वे बैंक जमाओं में रखते हैं।
2. आरक्षित जमा अनुपात (Reserve deposit ratio) कुल जमा का अनुपात है जो वाणिज्यिक बैंक आरक्षित के रूप में रखते हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 44) Solution (d)

मुद्रा जमा अनुपात (currency deposit ratio) मुद्रा में जनता द्वारा रखे गए धन का अनुपात है जो वे बैंक जमाओं में रखते हैं।

इसलिए कथन 1 सही है।

IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-3

आरक्षित जमा अनुपात (Reserve deposit ratio) कुल जमा का अनुपात है जो वाणिज्यिक बैंक आरक्षित के रूप में रखते हैं।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q. 45) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. साविधिक तरलता अनुपात उनके जमा के अंश को निर्दिष्ट करता है जो बैंकों को RBI के पास रखना चाहिए।
2. बैंक द्वारा जमा धारकों को दी जाने वाली ब्याज की दर को उधार दर (borrowing rate) कहा जाता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 45) Solution (b)

साविधिक तरलता अनुपात बैंकों को निर्दिष्ट तरल परिसंपत्तियों के रूप में अपनी कुल मांग और समय जमा का कुछ अंश बनाए रखने की आवश्यकता है।

इसलिए कथन 1 गलत है।

बैंक द्वारा जमा धारकों को दी जाने वाली ब्याज की दर को 'उधार दर' (borrowing rate) कहा जाता है तथा जिस दर पर बैंक अपना रिज़र्व निवेशकों को देते हैं उसे 'ऋण दर' (lending rate) कहा जाता है। दोनों दरों के बीच का अंतर, जिसे 'प्रसार' (spread) कहा जाता है, वह लाभ है जो बैंकों द्वारा विनियोजित किया जाता है।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q. 46) रिवर्स रेपो रेट (reverse repo rate) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. रिवर्स रेपो रेट में कमी से देश में मुद्रा आपूर्ति घट जाएगी।
2. यदि रिवर्स रेपो दर में वृद्धि की जाती है तो ग्राहकों के लिए बैंक की उधार दरों में भी वृद्धि होगी।

निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है/ हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 46) Solution (a)

रिवर्स रेपो दर वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक (भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत के मामले में) देश के भीतर वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है। रिवर्स रेपो दर में वृद्धि से मुद्रा आपूर्ति कम हो जाएगी।

इसलिए कथन 1 गलत है।

रिवर्स रेपो दर में वृद्धि का अर्थ है कि वाणिज्यिक बैंकों को अपने फंड को आरबीआई के साथ संरक्षित करने के लिए अधिक प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे बाजार में मुद्रा आपूर्ति कम हो जाएगी। इसका अर्थ यह भी है कि उपभोक्ताओं को ऋण देना जोखिम भरा हो जाता है, क्योंकि वे आसानी से आरबीआई के साथ पैसा संरक्षित करने से जोखिम मुक्त लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसकी भरपाई के लिए, बैंक जोखिम लेने के लिए अधिक लाभ कमाने के लिए अपनी ब्याज दरों में वृद्धि करते हैं।

इसलिए कथन 2 सही है।

IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-3

Q. 47) नकद आरक्षित अनुपात (CRR) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. भारत में नकद आरक्षित अनुपात का निर्णय RBI की मौद्रिक नीति समिति द्वारा किया जाता है।
2. CRR, RBI को मुद्रास्फीति के वांछित स्तर को बनाए रखने, मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने और अर्थव्यवस्था में तरलता को बनाए रखने की अनुमति देता है।
3. CRR जमा (CRR deposits) उस दर पर ब्याज अर्जित करते हैं जो रिजर्व रेपो दर के बराबर होती है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 3
- c) केवल 1 और 2
- d) केवल 2 और 3

Q. 47) Solution (c)

प्रत्येक बैंक को अपनी कुल नकद आरक्षित जमा का एक निश्चित हिस्सा रिजर्व बैंक के पास आवश्यक रूप से रखना होता है, जिसे नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) कहा जाता है।

भारत में नकद आरक्षित अनुपात का निर्धारण RBI की मौद्रिक नीति समिति द्वारा समय-समय पर मौद्रिक और क्रेडिट पॉलिसी में किया जाता है।

इसलिए कथन 1 सही है

आरबीआई के पास नीति संचालन में सीआरआर प्रमुख अवयवों में से एक है, जो इसे मुद्रास्फीति के वांछित स्तर को बनाए रखने, धन की आपूर्ति को नियंत्रित करने और अर्थव्यवस्था में तरलता को बनाए रखने की अनुमति देता है।

इसलिए कथन 2 सही है

नकद आरक्षित या तो बैंक की तिजोरी में रखा जाता है या RBI को भेजा जाता है। बैंकों को उस धन पर कोई ब्याज नहीं मिलता है जो CRR आवश्यकताओं के तहत RBI के पास होता है।

इसलिए कथन 3 गलत है

Q. 48) निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही तरीके से सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) की व्याख्या करता है?

- a) यह ब्याज दर है जिस पर रिजर्व बैंक, बैंकों को सरकार की संपार्श्विक (collateral) के सापेक्ष रातोंरात तरलता प्रदान करता है।
- b) यह एक ऐसी सुविधा है जिसके तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, रिजर्व बैंक से रात भर के लिए अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं।
- c) यह वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक विनिमय या अन्य वाणिज्यिक पत्रों के बिलों को खरीदने के लिए तैयार होता है।
- d) यह एक ऐसी सुविधा है जहां बड़े पूंजी प्रवाह से उत्पन्न अधिक स्थायी प्रकृति की अधिशेष तरलता को लघु-दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री के माध्यम से अवशोषित किया जाता है।

Q. 48) Solution (b)

सीमांत स्थायी सुविधा (MSF):

यह एक सुविधा है जिसके तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) पोर्टफोलियो के सापेक्ष निश्चित ब्याज दर की एक सीमा पर रिजर्व बैंक से रात भर के लिए अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं। यह बैंकिंग प्रणाली को अप्रत्याशित तरलता के झटके के सापेक्ष एक सुरक्षा वाल्व प्रदान करता है।

Q. 49) बैंक दर में वृद्धि (increase in the Bank Rate) आम तौर पर इंगित करती है कि

- a) केंद्रीय बैंक अब वाणिज्यिक बैंकों को ऋण नहीं दे रहा है।

IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-3

- b) केंद्रीय बैंक एक आसान मुद्रा नीति का पालन कर रहा है।
- c) केंद्रीय बैंक एक कठोर मुद्रा नीति का पालन कर रहा है।
- d) बाजार की ब्याज दर गिरने की संभावना है।

Q. 49) Solution (c)

एक बैंक दर वह ब्याज दर है जिस पर एक देश का केंद्रीय बैंक घरेलू बैंकों को पैसा उधार देता है, जो अक्सर बहुत ही अल्पकालिक ऋण के रूप में होता है। बैंक दर का प्रबंधन एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। निम्न बैंक दरें उधारकर्ताओं के लिए धन की लागत को कम करके अर्थव्यवस्था का विस्तार करने में मदद कर सकती हैं, और उच्च बैंक दरें अर्थव्यवस्था में कठोरता लाने में मदद करती हैं जब मुद्रास्फीति वांछित से अधिक होती है।

कठोर मौद्रिक नीति (Tight monetary policy): जब RBI तरलता को कम करने के लिए दरें बढ़ाता है।

Q.50) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. आरआरबी अधिनियम 1976 के तहत आरआरबी का एक वैधानिक समर्थन है।
2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की देखरेख राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा की जाती है।
3. उनके संचालन के क्षेत्र में केवल ग्रामीण क्षेत्र शामिल होते हैं।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) 1 और 2
- b) 2 और 3
- c) 1 और 3
- d) उपरोक्त सभी

Q. 50) Solution (a)

ग्रामीण बैंकों के पास क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 का विधायी समर्थन था। इस अधिनियम ने सरकार को समय-समय पर बैंकों की स्थापना करने की अनुमति दी, जहाँ भी आवश्यक हो।

इसलिए कथन 1 सही है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की देखरेख राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) द्वारा की जाती है।

इसलिए कथन 2 सही है।

वे मूल बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के साथ मुख्य रूप से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की सेवा करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। आरआरबी में शहरी परिचालन के लिए शाखाएँ हो सकती हैं और उनके संचालन के क्षेत्र में शहरी क्षेत्र भी शामिल हो सकते हैं।

इसलिए कथन 3 गलत है।

Q. 51) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, नाबार्ड को राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) का निरीक्षण करने का अधिकार देता है।
2. जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के अनुकूलन कोष के लिए नाबार्ड को राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई (NIE) के रूप में मान्यता दी गई है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2

IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-3

d) न तो 1 और न ही 2

Q. 51) Solution (d)

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 (6) नाबार्ड को राज्य सहकारी बैंकों (StCBs), जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCB) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) का निरीक्षण करने का अधिकार देती है।

इसलिए कथन 1 सही है।

नाबार्ड को इस निधि के तहत संसाधनों को चैनलाइज करने के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF) के डायरेक्ट एक्सेस एंटीटी (DAE) के रूप में मान्यता दी गई है। नाबार्ड का उद्देश्य जलवायु लचीलापन और कम उत्सर्जन विकास के उद्देश्य से परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए GCF संसाधनों का उपयोग करना है।

नाबार्ड को जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के अनुकूलन कोष के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई (NIE) के रूप में भी मान्यता प्राप्त है तथा साथ ही, जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन कोष के लिए NIE के रूप में नामित किया गया है।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q. 52) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. RBI की कुल देयता (liability) को मौद्रिक आधार (monetary base) कहा जाता है।
2. मुद्रा गुणक को एक अर्थव्यवस्था में उच्च शक्ति वाली मुद्रा के स्टॉक (stock of high powered money) के लिए मुद्रा के स्टॉक (stock of money) के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 52) Solution (c)

देश के मौद्रिक प्राधिकरण, RBI की कुल देयता को मौद्रिक आधार या उच्च शक्ति वाली मुद्रा कहा जाता है।

इसलिए कथन 1 सही है।

मुद्रा गुणक को एक अर्थव्यवस्था में उच्च शक्ति वाली मुद्रा के स्टॉक के लिए मुद्रा के स्टॉक के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।


इसलिए कथन 2 सही है।

Q. 53) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. देश के सभी वाणिज्यिक बैंकों के पास कुल जमा राशि उनके रिजर्व के कुल आकार से बहुत कम है।
2. खुले बाजार परिचालन (Open market operations) में सरकारी प्रतिभूतियों की सीधी खरीद और बिक्री दोनों शामिल होती हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2



IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-3

Q. 53) Solution (b)

देश के सभी वाणिज्यिक बैंकों के पास कुल जमा राशि उनके रिज़र्व के कुल आकार से बहुत अधिक है।

इसलिए कथन 1 गलत है।

खुला बाजार परिचालन (Open market operations): इनमें क्रमशः सतत तरलता के अन्तःक्षेपण (injection) और अवशोषण के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री दोनों शामिल होती हैं।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q. 54) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. निजी क्षेत्र के बैंकों को कंपनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित बैंकिंग कंपनी माना जाता है।
2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की इक्विटी (equity) का कुछ हिस्सा संबंधित राज्य सरकार के पास भी होता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 54) Solution (a)

निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में परिभाषित बैंकिंग कंपनी माना गया है।

इसलिए कथन 1 गलत है।

RRB की इक्विटी में केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक का योगदान 50:15:35 के अनुपात में होता है।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q.55) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत में सहकारी समितियाँ RBI के नियामक दायरे में नहीं आती हैं।
2. कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत तथा चिट व्यवसाय (chit business) में संलग्न एक कंपनी एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) हो सकती है।


ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.55) Solution (c)

भारत में सहकारी समितियाँ एक राज्य का विषय हैं तथा वे RBI के नियामक के दायरे में नहीं आती हैं।

इसलिए कथन 1 सही है।



IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-3

एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC), जो RBI अधिनियम, 1934 के Sec.45-I (c) के साथ संबद्ध होती है, एक कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत एक कंपनी है तथा जो निम्न व्यवसाय में संलग्न है:

1. उधार देने या वित्तपोषण
2. शेयरों / स्टॉक / बॉन्ड / डिबेंचर का अधिग्रहण
3. सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियां
4. पट्टे पर देने और खरीद
5. बीमा व्यवसाय
6. चिट व्यवसाय
7. मुद्रा संग्रह
8. जमा को स्वीकारना

इसलिए कथन 2 सही है।

Q. 56) विभिन्न प्रकार की NBFC की गतिविधियों के नियामकों पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. म्यूचुअल बेनेफिट कंपनियों (Mutual Benefit Companies) को सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है।
2. चिट फंड राज्य सरकारों द्वारा विनियमित होते हैं।

निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 56) Solution (a)

म्यूचुअल बेनेफिट कंपनियां, निधि कंपनियां (Nidhi Companies) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा विनियमित होती हैं।

इसलिए कथन 1 गलत है

चिट फंड राज्य सरकारों द्वारा विनियमित होते हैं।

इसलिए कथन 2 सही है

Q. 57) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. जमा प्रमाण पत्र (Certificate of Deposits -CD) का अर्थ, एक कॉर्पोरेट द्वारा जारी किया गया एक ऋण साधन है, जो मूल या प्रारंभिक परिपक्वता के साथ एक वर्ष तक के लिए जारी किया जाता है और निजी प्लेसमेंट (private placement) के माध्यम से जारी किया जाता है।
2. वाणिज्यिक पत्र (Commercial Paper- CP) एक असुरक्षित मुद्रा बाजार साधन है जिसे वचन पत्र (promissory note) के रूप में जारी किया जाता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 57) Solution (b)

IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-3

गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (Non-Convertible Debenture -NCD) का अर्थ, एक कॉर्पोरेट द्वारा जारी किया गया एक ऋण साधन (एनबीएफसी सहित) है, जो एक वर्ष तक मूल या प्रारंभिक परिपक्वता के साथ तथा निजी प्लेसमेंट के माध्यम से जारी किया जाता है।

इसलिए कथन 1 गलत है

वाणिज्यिक पत्र (Commercial Paper- CP) एक असुरक्षित मुद्रा बाजार साधन (unsecured money market instrument) है जिसे वचन पत्र (promissory note) के रूप में जारी किया जाता है।

इसलिए कथन 2 सही है

Q. 58) व्हाइट लेबल एटीएम (White Label ATM) के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है / हैं?

1. गैर-बैंक संस्थाओं द्वारा स्वामित्व और संचालित एटीएम को व्हाइट लेबल एटीएम कहा जाता है।
2. व्हाइट लेबल एटीएम किसी विशेष बैंक के लोगो को प्रदर्शित नहीं करेंगे।
3. ऑपरेटरों को बैंक ग्राहकों से सीधे एटीएम संसाधनों के उपयोग के लिए शुल्क लेने की अनुमति है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

- a) केवल 1
- b) केवल 1 और 2
- c) केवल 2 और 3
- d) 1, 2 और 3

Q. 58) Solution (b)

गैर-बैंक संस्थाओं द्वारा स्वामित्व और संचालित एटीएम को व्हाइट लेबल एटीएम कहा जाता है।

इसलिए कथन 1 सही है

एटीएम में नकद प्रायोजित बैंक द्वारा प्रदान किया जाता है जबकि एटीएम मशीन में बैंक की कोई ब्रांडिंग नहीं होती है। ये व्हाइट लेबल वाले एटीएम किसी विशेष बैंक के लोगो को प्रदर्शित नहीं करेंगे।

इसलिए कथन 2 सही है

बैंक के ग्राहकों द्वारा एटीएम संसाधनों के उपयोग के लिए ऑपरेटरों को बैंकों से शुल्क प्राप्त करने का अधिकार है तथा उन्हें सीधे बैंक ग्राहक से शुल्क लेने की अनुमति नहीं है।

इसलिए कथन 3 गलत है

TATA ने Indicash के ब्रांड नाम के तहत भारत में पहला व्हाइट लेबल ATM लॉन्च किया था।

Q. 59) इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (IPPB) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. बैंक 1 लाख रुपये तक के लिए केवल बचत (savings account) खाता प्रदान करता है।
2. यह संचार मंत्रालय के अंतर्गत डाक विभाग के साथ संचालित है।

निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-3

Q. 59) Solution (a)

बैंक 1 लाख रुपये तक का बचत और चालू खाता दोनों प्रदान करता है।

इसलिए कथन 1 गलत है।

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) एक 100% सरकारी स्वामित्व वाला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, जो संचार मंत्रालय के अंतर्गत डाक विभाग के साथ संचालित है,

इसलिए कथन 2 सही है।

Q.60) MUDRA बैंक के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह सूक्ष्म-वित्त संस्थानों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को कम दर पर ऋण प्रदान करता है, जो MSMEs को ऋण प्रदान करते हैं।
2. MUDRA बैंक के तहत तरुण श्रेणी (Tarun category) को 50 हजार रुपये तक के ऋण की अनुमति है।
3. बैंक SIDBI की सहायक कंपनी के रूप में कार्य करेगा।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) 1 और 2
- b) 2 और 3
- c) 1 और 3
- d) उपरोक्त सभी

Q.60) Solution (c)

Micro Units Development and Refinance Agency Bank (या MUDRA बैंक) भारत में एक सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्था है। यह सूक्ष्म-वित्त संस्थानों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को कम दर पर ऋण प्रदान करता है, जो MSMEs को ऋण प्रदान करते हैं।

इसलिए कथन 1 सही है।

बैंक अपने ग्राहकों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करेगा तथा अधिकतम स्वीकृत ऋण राशि श्रेणी के आधार पर होगी:

शिशु: स्वीकृत ऋण 50,000 रूपए तक

किशोर: 5 लाख रूपए तक के ऋण की अनुमति

तरुण: 10 लाख तक के ऋण की अनुमति

इसलिए कथन 2 गलत है।

बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) की सहायक कंपनी के रूप में कार्य करेगा।

इसलिए कथन 3 सही है।

